



नवीनतम संस्करण की प्रस्तावना (NSQF लैबल-3 सम्पत्)



कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जैसी विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं के संबंध में योजना बनाने, और मानदंडों, मानकों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की निर्धारित करने के संबंध में देश में शीर्ष निकाय है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS), शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ATS), शिल्प प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण योजना (CITS) और इसी तरह की कई अन्य योजनाएँ हैं जिनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल से लैस करना है जिससे उन्हें अच्छे रोजगार पाने के लिये मदद मिले।

इन सभी योजनाओं में से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित CTS, न केवल लाभ प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के मामले में, बल्कि अच्छी तरह से स्थापित और पूरी तरह से सुसज्जित संस्थागत ढांचे के मामले में भी सबसे बड़ी है।

जुलाई 2022 में वैल्डर ट्रेड के लिए संशोधित नवीनतम पाठ्यक्रम (संस्करण 2.0) हाल ही में DGT द्वारा अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि इस ट्रेड के NSQF स्तर को चार से तीन में संशोधित करने के अलावा, कुछ विषयों को युक्तिसंगत/समाप्त करने और प्लास्टिक की वेल्डिंग के महत्वपूर्ण जोड़ के साथ किया गया है।

इस पुस्तक को पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए तैयार और पुनः डिजाइन किया गया है। ट्रेड सिद्धांत से संबंधित सभी आवश्यक विषयों को कवर करने के अलावा प्रत्येक मॉड्यूल में बहुविकल्पीय प्रश्नों के पर्याप्त सेट जोड़े गए हैं। इसके अलावा विस्तारपूर्वक और आवश्यक नोट्स के साथ दस मॉड्यूल पेपर शामिल किए गए हैं, जो हमारा मानना है कि, ट्रेड थ्योरी विषय की उचित समझ और आत्मविश्वास के साथ फाइनल ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए प्रशिक्षुओं के लिए बहुत मददगार होना चाहिए।


हमें पूरी उम्मीद है कि वैल्डर ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षुओं को यह पुस्तक बहुत मददगार लगेगी।

यह पुस्तक निम्नलिखित ITI ट्रेड्स के ट्रेड थ्योरी के सिलेबस को भी कवर करती है:

- वैल्डर (GMAW और GTAW)
- वैल्डर (पाइप)
- वैल्डर स्ट्रक्चरल
- वैल्डर (फैब्रिकेशन और फिटिंग)
- वैल्डर (वेल्डिंग और निरीक्षण)

हम निस्संदेह, अपने सम्मानित पाठकों के सुझावों का स्वागत करते हैं जो हमारे अगले संस्करणों में सुधार करने में मदद करेंगे।

— लेखक



विषय-सूची

NSQF लेवल-3 सम्मत योग्यता आधारित पाठ्य-सूचीक्रम बैलर ट्रेड श्योरी (2022 पाठ्य-सूचीक्रम).....(vii – viii)

1. प्रेरण प्रशिक्षण और वेल्डिंग प्रक्रियाएं

(Induction Training and Welding Processes) 1-17

परिचय, आई टी आई में अनुशासन बनाए रखना, सॉफ्ट स्किल्सः परिचय, सामान्य सुरक्षार्थ सावधानियाँ, प्राथमिक चिकित्सा, धातु जोड़ने की प्रक्रियाएंः मकेनिकल फास्टिंग, बोल्ट्स और नट्स, सेट स्क्रूज, ग्रब स्क्रूज, थम्ब स्क्रूज, रिवेटिंग, रिवेट हैडों के आकार, रिवेटिंग के लाभ और हानियाँ, रिवेटिंग ज्वाइंट्स, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सीरिंग, हैमिंग, फ्लूजन वेल्डिंग, वेल्डिंग बनाम रिवेटिंग, वेल्डिंग प्रक्रिया, सुरक्षा: सामान्य वेल्डिंग सुरक्षा टिप्पणी, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए अनुशोधन, अग्नि सुरक्षा।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 16-17

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

2. वर्कशॉप प्रैक्टिस

(Workshop Practice) 18-57

स्टील रूल, स्क्राइबर, डिवाइडर्स, डेटम, कैलिपर्स, ट्रैमल, प्रिक पंच, केंद्र पंच, हैमर्स, हथौडे, पेंचकस, 'VEE' ब्लॉक्स, 'वी' ब्लॉकों की शुद्धता चैक करना, सावधानियाँ, मार्किंग ऑफ टेबल, वाइस और हैक्सासः वाइसिस, वाइसिस की देखभाल और रखरखाव, वाइस क्लैप्स, हैक्सास, हैक्साइंग, सावधानियाँ, ट्राई स्क्वेयर, फ़ाइलः फ़ाइल, कटों के प्रकार, ग्रेड्स, फ़ाइलिंग, कोल्ड चीज़ज़ल्सः चिपिंग ऑपरेशन, चि. पिंग विधि, सावधानियाँ, ड्रिलिंग प्रक्रियाएँः ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मशीन पर ऑपरेशन्स, ड्रिलिंग मशीनों के प्रकार, वर्क होल्डिंग डिवाइस, ट्रैक्स डिल को तेज़ करना, हैंड ट्रैप्सः ट्रैप रैंच, स्टड एक्स्ट्रैक्टर, धातु कटिंग मशीनेंः हैंड बैंच शियर, गिलोटिन शियर, बैंच ग्राइंडर, पेड़स्टल ग्राइंडर, प्रेस मशीन, पर्चिंग और ब्लैंकिंग, निबिलिंग, बैंडिंग प्रक्रियाएँः कोल्ड बैंडिंग, हॉट बैंडिंग।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 53-57

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

3. आर्क वेल्डिंग

(Arc Welding) 58-98

आर्क वेल्डिंगः मैनुअल मेटल-आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग सर्किट, इलेक्ट्रोड होल्डर, आर्क को स्ट्राइक करना, आर्क की लम्बाई, आर्क वेल्डिंग उपकरणः ए.सी. ट्रांसफॉर्मर, डी.सी. वेल्डिंग जनरेटर, रोटिंग, इनर्टर, मशीन रेटिंग, पोलारिटी, ए.सी. बनाम डी.सी., आर्क वेल्डिंग बोल्टेज, आर्क वेल्डिंग कारेंट, जिग्स और फिक्स्चर्स, मेनिपुलेटर्स और पोजीशनर्स, वेल्डिंग जोड़ः वेल्डिंग ज्वाइंट्स के प्रकार, वेल्डिंग से पहले एज प्रेपरेशन, वेल्डिंग पोजिशन, स्ट्रिंगर बीड़स, वेल्डिंग समायोजन वेरिएबल्स, इलेक्ट्रोइस, कारेंट, इलेक्ट्रोड का कोण, चाल की स्पीड, आर्क की लम्बाई, ओवर लैप, स्पैसर, बीड़ का अधिक कॉनवेक्स होना, अण्डर कट, फ्लूजन में कमी होना, पेनिट्रेशन में कमी होना, छिद्रिता, अन्य परिवर्तनशीलों को चैक करें, बीड़ के प्रकार, IS:813-1986 के अनुसार वेल्डिंग के लिए चिह्न, पूरक चिह्न, ड्राइंगों पर चिह्नों की पोजीशन, वेल्डस की डायमेंशनिंग, सामान्य टर्म्स (IS : 812-1957), अर्का ब्लॉ, इलेक्ट्रोडः इलेक्ट्रोड,

इलेक्ट्रोड कोर्डिंग, सही इलेक्ट्रोड का चयन करना, इलेक्ट्रोडों को स्टोर करना, डिस्टार्शन और उसका नियंत्रणः डिस्टार्शन के प्रकार, डिस्टार्शन को कट्टोल करने वाले स्टेप, डिस्टार्शन से बचाव व कट्टोल, फ्लेम स्ट्रेटरिंग, इलेक्ट्रिकल टर्म्सः आर्क वेल्डिंग टर्म्स।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 91-98

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

4. गैस वेल्डिंग

(Gas Welding) 99-138

गैस वेल्डिंग प्रक्रियाः ऑक्सी-एसिटीलिन वेल्डिंग विधि, ऑक्सी-ऐसिटीलिन फ्लेम, फ्लेम के प्रकार, फ्लेम की विशिष्टियाँ, टार्च को जलाना, बैकफायर और फ्लैशबैक, असामान्य फ्लेम के कारण, टार्च का प्रवाह रोकना, ईंधन गैसें, फ्लेम का तापमान, ज्वलनशीलता का अनुपात, ज्वलनशीलता का ताप, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, सामान्य धातुओं का गलनांक, गैसों को उत्पादन, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिटीलिन, कैल्सियम कार्बाइड, कैल्सियम कार्बाइड को स्टोर करना, एसिटीलिन विस्फोटक होती है, एसिटीलिन का उत्पादन, एसिटीलिन जनरेटर, कार्बाइड में पानी डालने वाला जनरेटर, पानी में कार्बाइड डालने वाला जनरेटर, कार्बाइड में पानी डालने वाले जनरेटर के लाभ, पानी में कार्बाइड डालने वाले जनरेटर के लाभ, एसिटीलिन का शुद्धिकरण, एसिटीलिन के गुण, गैस वेल्डिंग साज-समानः ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर वाल्व, ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए सुरक्षार्थ सावधानियाँ, एसिटीलिन सिलेंडर, छिद्रिल पदार्थ, घुली हुई एसिटीलिन, डी०८० के लाभ, एसिटीलिन सिलेंडर के लिए सुरक्षार्थ सावधानियाँ, रेगुलेटर्स, रेगुलेटरों को प्रयोग करने संबंधी सुरक्षार्थ सावधानियाँ, गेज, प्रैशर रेगुलेटर को बंद करने की कार्यविधि, हाइड्रोलिक बैक प्रैशर, होजेर, होज की सुरक्षा, होज कनेक्शन, वेल्डिंग टार्चें, हाई प्रैशर टार्च, पोर्पिंग, लो प्रैशर टार्च, वेल्डिंग टिप्स, नोजल के साइज, टिप साफ करना, फिलर रॉड और फ्लक्सिस, फिलर रॉडों की हैंडलिंग और स्टोरेज, फिलर रॉड के प्रयोग के लिए सुरक्षा, सही फिलर रॉड का चयन करना, फिलर रॉडों के साइज – IS: 1278-1972, फिलर रॉडों के प्रयोग में बचत करना, फिलर रॉडों को प्रयोग के लिए तैयार करना, फ्लक्सेस, गैस इकोनोमाइजर, मेनिफोल्ड, गैस वेल्डिंग विधियाँः ऑक्सी-एसिटीलिन प्लांट की सेटिंग करना, वेल्डिंग पोजीशनें, फ्लैट पोजीशन, बीड पर फ्लेम के प्रकार का प्रभाव, फिलर रॉड से स्ट्रेट लाइन बीड बनाना, हारिस्टांल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहैड पोजीशन, बेसिक वेल्डिंग ज्वाइंट्स, बट ज्वाइंट, 'टी' ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट, ऐज ज्वाइंट, वेल्डिंग तकनीकें, अच्छे और खराब वेल्ड्स, प्रैशर गैस वेल्डिंग, साज-सामान, गैस वेल्डिंग टर्म्स।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 134-138

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

5. गैस कटिंग

(Gas Cutting) 139-153

ऑक्सी-एसिटीलिन कटिंग, ऑक्सीडेशन मिडांत, धातुओं के काटने की कौशलता, कटिंग विधियों के प्रकार, गैस कटिंग, कटिंग टार्च को

जलाना, कटिंग करना, गैस कट ऐंजों में दोष, होल्स की पिवर्सिंग, शीट मेटल को काटना, प्लेटों की बैवर्लिंग करना, बड़े सुराखों की कटिंग करना, स्टैक कटिंग करना, गाउंजिंग, कटिंग के लिए सहायक साधन, गैस कटिंग मशीनें, पाउडर कटिंग, ऑक्सीजन लैंस, अण्डरवाटर कटिंग, ऑक्सी आर्क कटिंग, आर्क कटिंग, प्लाज्मा आर्क कटिंग।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 152–153

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

6. धातुओं की वेल्डेबिलिटी

(Weldability of Metals) 154–177

वेल्डेबिलिटी: स्टीलों का वर्गीकरण, प्लेन कार्बन स्टीलों, स्टीलों की वेल्डेबिलिटी, लो एलॉय स्टीलों, हाई-एलॉय स्टीलों, कार्बन स्टीलों की वेल्डेबिलिटी, कार्बन समतुल्य, आर्क वेल्ड करने वाली स्टीलों की वरीयता प्राप्त कम्पोजीशन, अन्य विचार, स्टेनलैस स्टील की वेल्डिंग: ऑस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील, मार्टेसाइटिक स्टेनलैस स्टील, फेराइटिक स्टेनलैस स्टील, स्टेनलैस स्टील के उपयोग, स्टेनलैस स्टील की गैस वेल्डिंग, स्टेनलैस स्टील की आर्क वेल्डिंग, शील्ड आर्क विधि, गैस मेटल-आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन-आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, वेल्ड हास, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कास्ट आयरन की वेल्डिंग: परिचय, कास्ट आयरन की कम्पोजीशन, कास्ट आयरन की श्रेणियाँ, कास्ट आयरन की गैस वेल्डिंग, कास्ट आयरन की आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रक्रियाएँ, पीरिंग, कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग, ब्रेज सरफेसिंग, कॉपर की वेल्डिंग: डि-ऑक्सीडाइज्ड हुए कॉपर की वेल्डिंग, कॉपर की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, कॉपर के साथ कार्बन आर्क की वेल्डिंग, कॉपर की टिंग वेल्डिंग, कॉपर की ब्रेज वेल्डिंग, कॉपर की स्पॉट वेल्डिंग, एल्युमीनियम की वेल्डिंग: रॉट एल्युमीनियम की ऑक्सी-एसिटीलिन वेल्डिंग, एल्युमीनियम कार्बिंग्स की ऑक्सी-एसिटीलिन वेल्डिंग, एल्युमीनियम की आर्क वेल्डिंग, एल्युमीनियम की TIG वेल्डिंग, एल्युमीनियम की डफ्ल वेल्डिंग, एल्युमीनियम की एटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एल्युमीनियम की सोल्डरिंग, एल्युमीनियम के लिए सोल्डर्स, ज्वाइंट का डिजाइन, ब्रास की वेल्डिंग: ऑक्सी एसिटीलिन वेल्डिंग, ब्रास की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ब्रॉज की वेल्डिंग।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 175–177

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

7. ब्रेजिंग और सोल्डरिंग

(Brazing and Soldering) 178–190

ब्रेजिंग, ज्वाइंट डिजाइन, सरफेस तैयार करना, फ्लेक्सेस, निर्यात्रित चातावरण, ब्रेजिंग के लिए फिलर धातुएँ, वर्गीकरण, ब्रेजिंग के लिए हीटिंग विधियाँ, मैनुअल ब्रेजिंग कार्यविधि, सिल्वर ब्रेजिंग, बिट्स की सिल्वर ब्रेजिंग, ब्रेज वेल्डिंग, ब्रॉज वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, लीकिंड फ्लेक्स के साथ ब्रेजिंग करना, सोल्डरिंग, सोल्डर, फ्लेक्सेस, कोरोसिब, ताप देने के साधन, ज्वाइंट का डिजाइन, सोल्डरिंग तकनीकें, सोल्डरिंग सुरक्षा।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 190

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

8. पाइप वेल्डिंग

(Pipe Welding) 191–202

वेल्डिंग पोजीशनें, पाइप वेल्डिंग के लिए बेसिक कार्यविधि, पाइप ज्वाइंट को तैयार करना, पाइप की फिटिंग, डाउनहिल पाइप वेल्डिंग, अपहिल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल पाइप वेल्डिंग-2G, पाइप की

ऑक्सी-एसिटीलिन वेल्डिंग, पाइप ज्वाइंट की इनटर गैस आर्क वेल्डिंग, पाइप वाइस, पाइप काटना, पाइप कटर, पाइप मोड़ना, पाइप बोंडिंग मशीनें।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 201–202

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

9. इंस्पेक्शन और टेस्टिंग

(Inspection and Testing) 203–219

वेल्डिंग से पहले इंस्पेक्शन, वेल्डिंग के दौरान इंस्पेक्शन, सामान्य वेल्डिंग गलतियाँ, वेल्डिंग के बाद इंस्पेक्शन, नॉन-डिस्ट्रिक्ट टैस्ट, डाई पेनिट्रेट इंस्पेक्शन, फ्लोरिसेंट पेनिट्रेट इंस्पेक्शन, चुम्बकीय कण टैस्ट, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, अल्ट्रासोनिक टैस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट टैस्टिंग, वेल्डिंग कोड, कोड और मानकों के स्रोत, वेल्डिंग कोड और मानक क्या प्रदान करते हैं?, वेल्डिंग गुणवता और विश्वसनीयता में सुधार का अवसर, वेल्डिंग कॉर्स।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 218–219

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

10. गैस मेटल आर्क वेल्डिंग

(Gas Metal ARC Welding) 220–232

साज-सामान, कार्यक्रियायें, क्वालिटी, सुरक्षा, धातु ट्रांस्फर मोडस, MIG / CO₂ वेल्डिंग के लाभ, फ्लक्स-कोर्ड आर्क वेल्डिंग।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 231–232

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

11. गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग

(Gas Tungsten Arc Welding) 233–248

टी आई जी वेल्डिंग, कार्यक्रिया, सुरक्षा, उपयोग, क्वालिटी, साज-सामान, वेल्डिंग पेरामीटर्स, आर्क इग्नीशन, पार्ट्स की तैयारी, ज्वाइंट बनाना, ऑरेट करने की तकनीक, पल्स्ट कॉट टी आई जी, वेल्ड दोष, प्लास्मा आर्क वेल्डिंग, टी आई जी और प्लास्मा आर्क वेल्डिंग में अन्तर।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 248–248

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

12. रेजिस्टेंस वेल्डिंग

(Resistance Welding) 249–255

बेसिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग मशीन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लाभ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की हानियाँ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार, स्पॉट वेल्डिंग, वेल्डिंग साइकिल, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग, फ्लेश बट वेल्डिंग, वेल्ड दोष, वेल्ड की इंस्पेक्शन और टैस्टिंग।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 254–255

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

13. अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाएं

(Other Welding Processes) 256–278

सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, लक्षण, थर्मिट वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, हार्ड फेसिंग, हार्ड फेसिंग, ऑक्सी-एसिटीलिन से सरफेसिंग करना, आर्क से सरफेसिंग करना, स्टेलाइटिंग, ऑक्सी-एसिटीलिन से स्टेलाइटिंग की विधि, मैटेलाइजिंग, थर्मल स्प्रेइंग, प्लास्टिक की वेल्डिंग, वेल्डिंग थर्मोप्लास्टिक्स।

एसाइनमेंट/टेस्ट (सॉल्वड) 277–278

- बहु विकल्पीय प्रश्न
- कुँजी
- विस्तारपूर्वक नोट

परिशिष्ट : प्रथम वर्ष मॉडल पेपर्स 1 से 10 (वार्षिक A.I.T.T. परीक्षा के लिए – NSQF लेवल – 3) 279–328